

-:प्रेस नोट दिनांक 10.09.2021:-

थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।

थाना शीशगढ़ #bareillypolice द्वारा हत्या से सम्बन्धित अभियोग का सफल अनावरण कर वांछित अभियुक्त शमशुल को गिरफ्तार कर एक अदद छोटा चाकू(चकुईया) व कपड़े बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी बहेड़ी महोदय के कुशल नेतृत्व में मु0अ0सं0 269/21 धारा 302 भादवि का सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त मे वांछित चल रहे अभियुक्त शमशुल पुत्र रहीस अहमद उर्फ भूरा नि0 जाफरपुर थाना शीशगढ़ बरेली में प्र0नि0 शीशगढ़ मय टीम के थाना क्षेत्र मे मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त मे वांछित चल रहे अभियुक्त शमशुल उपरोक्त कही जाने की फिराक में ढकिया डाम तिराहे पर खड़ा है मुखबिर की निशादेही पर अभियुक्त शमशुल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा पूछने पर बताया कि मृतक महफूज आलम अभियुक्त बहुत अच्छा दोस्त था, महफूज के अभियुक्त की पत्नी से प्रेम प्रसंग थे एवं अभियुक्त की पत्नी के साथ अवैध सम्बन्ध बना लिये थे तथा अभियुक्त की पत्नी पर अश्लील फोटो व विडियो दिखाकर लगातार अवैध सम्बन्ध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा । जिस कारण अभियुक्त द्वारा शमशुल की हत्या करने का इरादा कर योजनावद्ध तरीके से दिनांक 6/7.09.21 की रात्रि को अपने साथ मोटर साईकिल पर ले जाकर हत्या कर देने के उपरान्त शव को सड़क किनारे फेकने व मोटर साईकिल को सड़क के बीच मे छोड़ कर भाग जाने एवं हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश कर पुलिस को भ्रमित करने का प्रयास किया गया था ।

प्र0नि0 शीशगढ़ मय पुलिस बल के साथ घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त शमशुल को घटना मे प्रयुक्त चाकू एवं घटना के समय पहने कपड़ो को अभियुक्त की निशादेही पर बरामद कर अभियुक्त को मा0 न्या0 के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शमशुल पुत्र रहीस अहमद उर्फ भूरा नि0 जाफरपुर थाना शीशगढ़ जनपद बरेली उम्र करीब 30 वर्ष ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 269/2021 धारा 302 भादवि थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक छोटा चाकू बरामद चाकू(चकुईया) व घटना के समय अभि0 द्वारा पहने कपड़े ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री योगेश कुमार थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।
2. उ0नि0 सुशील कुमार थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।
3. हे0का0 445 अमरीश शर्मा थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।
4. का0 1313 रोहित चौधरी थाना शीशगढ़ जनपद बरेली ।

प्रभारी निरीक्षक
थाना शीशगढ़, बरेली ।